



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2559]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 23, 2010/पौष 2, 1932

No. 2559]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 23, 2010/PAUSA 2, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2010

का.आ. 3021(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित उक्त राष्ट्रीय समिति के द्वारा अनुमोदित संस्थानों को अधिसूचित करती है तथा उक्त संस्थानों द्वारा चलाई जाने वाली विनिर्दिष्ट पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित उनकी अनुमानित लागत को अनुमोदित करती है तथा सारणी के कॉलम (4) में ऐसी लागत की अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती है जिसे उक्त धारा 35 क ग के तहत अनुमोदित अवधि के लिए कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाना है, नामतः :—

सारणी

क्रम सं.	संस्था का नाम	परियोजना अथवा स्कीम और उसकी अनुमानित लागत	धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	राजमाता सिंगरौली लता चुन कुमारी सेवा संस्थान, सिंगरौली कोठी, डाक वैधान, जिला सिंगरौली, रीवा, संभाग, मध्य प्रदेश	मलेरिया का बचाव और उन्मूलन, ग्रामीण जनसंख्या को सामान्य स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना (2 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित लागत 4.18 करोड़ रुपये)	वर्ष 2010-2011 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 हेतु 2 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 4.18 करोड़ रुपये
2.	लेपरा सोसायटी, प्लॉट सं. 17, पोस्ट बाक्स सं. 1518, कृष्णापुरी कालोनी, पश्चिम मार्रेडपल्लि, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश	(i) बोलिंगीर कुष्ठ रोग उन्मूलन परियोजना (ii) जूनागढ़ कुष्ठ रोग उन्मूलन परियोजना (iii) कोरालिप परियोजना ; कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों की देखभाल हेतु स्ट्रेंथनिंग रेफरल सिस्टम (iv) लिमफेटिक फिलारिआसिस परियोजना	वर्ष 2010-2011 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 हेतु 15.41 करोड़ रुपये

		<p>v) लेपरा महानदी नेत्र अस्पताल</p> <p>vi) टेक्नीकल रिसोर्स यूनिट और स्ट्रेंथनिंग रेफरल सिस्टम परियोजना</p> <p>vii) आदिलाबाद ग्रामीण और जनजातीय स्वास्थ्य परियोजना</p> <p>viii) छयूठा परियोजना</p> <p>ix) मेन्स इंटरवेन्शन परियोजना</p> <p>x) मोबाइल वोलंट्री काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर प्रोजेक्ट</p> <p>xi) उम्मीद परियोजना</p> <p>xii) वर्कप्लेस इंटरवेन्शन परियोजना</p> <p>xiii) कृष्णा कम्युनिटी हेल्थ इंटरवेन्शन प्रोजेक्ट</p> <p>xiv) श्रेयासु परियोजना</p> <p>xv) तकनीकी रिसोर्सिज यूनिट-एम पी.</p> <p>(लागत 15.41 करोड़ रुपये)</p>	
3.	अभय आश्रय, डाकखाना अस्साईगोली 574199, गांव कोनजे, तालुका मंगलौर, डी. के., जिला कर्नाटक	<p>वृद्धाश्रम की पुनरावर्ती लागत, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग वृद्ध लोगों के लिए आवास, निस्सहाय बच्चों के लिए आवास का पुनरावर्ती खर्च और 50 लाख रुपये की कार्पस निधि (50 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित लागत 3.40 करोड़ रुपये)</p>	<p>वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2010-2011 एवं 2011-2012 और 2012-2013 हेतु 50 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 3.40 करोड़ रुपये</p>
4.	लीगल अवेयरनेस एंड वेलफेयर सोसायटी, डी. नं0 26-32-4, सुरेश भवन, 6 वीं लाइन, ए.टी. अग्रहाराम, गुंदूर 522 001. आंध्र प्रदेश	<p>बच्चों की देखभाल और गरीब वृद्धों को भोजन</p> <p>(लागत 2.11 करोड़ रुपये)</p>	<p>वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 हेतु 2.11 करोड़ रुपये</p>
5.	नेत्र चिकित्सा ट्रस्ट, राधिका जनरल हास्पिटल चितल रोड, अमरेली, गुजरात	<p>ट्रस्ट अस्पताल के लिए पुनरावर्ती व्यय, नर्सिंग कोर्स हेतु एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने, चिकित्सा कैम्प लगाने और एक करोड़ रुपये की कार्पस निधि हेतु</p> <p>(1 करोड़ रुपये की कार्पस निधि</p>	<p>वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष के लिए अर्थात् 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 हेतु 1 करोड़ रुपये की कार्पस निधि</p>

		सहित लागत 9.02 करोड़ रुपये)	सहित 9.02 करोड़ रुपये
6.	सेवा सदन नेत्र अस्पताल ट्रस्ट, सिविल हास्पिटल के पीछे, संत हृदयराम नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश - 462030	मुफ्त नेत्र कैम्प और यूरालजी कैम्प (लागत 5.69 करोड़ रुपये)	वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2010-2011 एवं 2011-2012 एवं 2012-2013 हेतु 5.69 करोड़ रुपये
7.	सोलापुर जिला मगस समाज सेवा संशोधन संस्था, 15-ए, जवाहर हाउसिंग सोसायटी, सिविल लाईन्स, सोलापुर 413 003.	"कमजोर वर्ग का उत्थान" खानाबदोश जनजाति को स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा प्रदान करना (लागत 583.63 लाख रुपये)	वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि हेतु अर्थात् 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 हेतु 1 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 583.63 लाख रुपये
8.	कोट्टाप्पुरम एकीकृत विकास सोसायटी, कोट्टाप्पुरम डाकखाना कोडंगल्लूर, जिला तृशूर, केरल 680 667.	ग्रामीण तटवर्तीय केरल में निरंतर आजीविका हेतु नेचुरल फाइबर क्राफ्ट परियोजना (लागत 9.48 करोड़ रुपये)	वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 हेतु 9.48 करोड़ रुपये
9.	मार्काजु साक्यूफेथी सुन्निय्या कन्नमंगलम, पंचायत, द्वार सं० के.पी. 6/561, जिला कोजिकोड, केरल - 673571	अनाथ बच्चों की देखभाल और गरीब ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य योजना (लागत 44.05 करोड़ रुपये)	वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 हेतु 44.05 करोड़ रुपये
10.	बुद्ध विकलांग विकास संस्थान, भलुआ रोड, डोमुहन, बोध गया, जिला गया, बिहार 824 231.	बाल श्रमिकों के लिए स्कूलों हेतु पुनरावर्ती लागत, विकलांग विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, विकलांग व्यक्तियों के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास और कार्पस निधि हेतु (50.00 लाख रुपये की कार्पस निधि	वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 हेतु 50.00 लाख रुपये की कार्पस निधि

		सहित लागत 4.66 करोड़ रुपये)	सहित 4.66 करोड़ रुपये
11.	श्री बालाजी शिक्षण प्रसारक मंडल, गुरुवर पेथ, अम्बाजोगई, जिला बीट, महाराष्ट्र 431517	शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए पुनर्वास केन्द्र (153.84 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित लागत 288.30 लाख रुपये)	वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 हेतु 153.84 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 288.30 लाख रुपये
12.	बधिर और बधिरदृष्टिहीनों के लिए हेलन केलर संस्था, नगर निगम माध्यमिक स्कूल, भूतल, "एस" ब्रिज के पास, एन.एम जोशी मार्ग, बायकुल्ला (प०), मुम्बई - 400 011.	एक से अधिक रूप से अशक्त बधिरों, बधिर - दृष्टिहीनों - मूक व्यक्तियों की शिक्षा एवं पुनर्वास हेतु (लागत 5.74 करोड़ रुपये)	वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 हेतु 5.74 करोड़ रुपये
13.	लाईफ एकेडमी ऑफ वोकेशनल स्टडीज, 119, को-ओपरेटिव हाउसिंग काम्पलेक्स, डाकखाना कीट, भुवनेश्वर 751024, उड़ीसा	शिक्षा, खेती आधारित आजीविकाओं और बेहतर स्वास्थ्य के लिए व्यापक विकास (लागत 3.72 करोड़ रुपये)	वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 हेतु 3.72 करोड़ रुपये
14.	विश्व प्रतिष्ठान, घर सं० 735/23, दिनदयाल नगर, कुर्दवड़ी रोड, बर्शी, ताल बर्शी, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र	"दूसरी पारी गृह" ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम (52.87 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित लागत 180.33 लाख रुपये)	वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 हेतु 52.87 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 180.33 लाख रुपये
15.	नारी जागरण केन्द्र, कुश्मी, वार्ड सं० 9, डाकखाना चंदादीह, जिला बांका 813 109, बिहार	महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण गांवों के लिए कम लागत वाली स्वच्छता परियोजना, पर्यावरणीय स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम, कार्यालय प्रशासन के लिए और कार्पस निधि	वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 हेतु 25 लाख रुपये की कार्पस निधि

		हेतु (25 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित लागत 2.65 करोड़ रुपये)	सहित 2.65 करोड़ रुपये
16.	जनहित, अनन्त कृपा, सं0 8-11-336, नीलकण्ठेश्वर नगर, एन जी ओ कालोनी रायचूर	आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए माइक्रो - वित्त कार्यक्रम, सामुदायिक सशक्तिकरण परियोजना, बेसहारा बच्चों के लिए आश्रय गृह और 50 लाख रुपये की कार्पस निधि (लागत 5.03 करोड़ रुपये)	वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 हेतु 5.03 करोड़ रुपये
17.	राजा चेरिटेबल मेडिकल ट्रस्ट, पी.बी. सं0 34, मुथुवत्तूर, चावक्कड - 680506, जिला त्रिचुर, केरल	आउटरीच केयरिंग हैंड्स (लागत 4.06 करोड़ रुपये)	वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 हेतु 4.06 करोड़ रुपये
18.	काहिजा कस्तूरबेन हिम्मतलाल जानी चेरिटेबल ट्रस्ट, 8 भूतल, वृजभूमि अपार्टमेंट्स, सी एन एच आई जी स्कूल के सामने, पोलिटेक्नीक रोड, अम्बावाड़ी, अहमदाबाद 380001.	स्ट्रीट चिल्ड्रन परियोजना, एड्स परियोजना, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, वूमन, चिल्ड्रन परियोजना (लागत 2.95 करोड़ रुपये)	वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 हेतु 2.95 करोड़ रुपये
19.	लेबर वेल्फेयर ट्रस्ट, 9, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, भद्र, अहमदाबाद 380001	जे.बी. कन्यागृह (लागत 20,25,000 रुपये)	वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 हेतु 20,25,000 रुपये
20.	फेथ मिनिस्ट्री सोसायटी, नागागांव कालोनी, दीमापुर, नागालैंड - 797112.	व्यसनी एवं शराबियों के लिए पुनर्वास केन्द्र (किराये का भवन) की स्थापना (लागत 5 करोड़ रुपये)	वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 हेतु 5 करोड़ रुपये
21.	ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डवलपमेंट सोसायटी,	एकीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, टर्मिनल कैंसर हेतु	वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन

	नियर रेलवे स्टेशन, आजमगढ़, 276011, उत्तर प्रदेश	पुनरावर्ती लागत, एच आई वी/एड्स और टी. बी. रोगी, बेसहारा वृद्ध व्यक्तियों को अपनाने के लिए, एम्बुलेंस सेवाओं का विस्तार, आर्थिक रूप से कमजोर गरीब विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और 5 करोड़ रुपये की कार्पस निधि (5 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित लागत 25.29 करोड़ रुपये)	वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 हेतु 5 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 25.29 करोड़ रुपये
22.	श्री बालाजी सोशियल वेल्फेयर एंड चेरिटेबल सोसायटी फॉर एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, फ्लैट नं०. 1065, सेक्टर बी, वसंत कुंज, नई दिल्ली	विकास में महिलाओं का योगदान (लागत 4.18 करोड़ रुपये)	वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 हेतु 4.18 करोड़ रुपये
23.	चिंग्टन डवलपमेंट सोसायटी, फैबंग खुल्लन, डाकखाना सेनापति, जिला सेनापति, मणिपुर 795106	आय सृजन कार्यक्रम द्वारा गरीब जनजाति का आर्थिक सशक्तीकरण (लागत 484.50 लाख रुपये)	वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 हेतु 484.50 लाख रुपये
24.	स्वीकार, रिहबिलिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर हेण्डीकेप्ड, उपकार काम्पलेक्स, उपकार जंक्शन, पिकेट, सिकंदराबाद-3, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश में थंडुर के पुनर्वास के विस्तार हेतु (लागत 3.80 करोड़ रुपये)	वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 हेतु 3.80 करोड़ रुपये
25.	भाई कन्हैयाजी वृद्ध गृह, यतीम घर, आयुर्वेदिक दवा खाना, भाई मझ साहिब रोड, सुलतानविंड, जिला अमृतसर, पंजाब - 143001.	भाई कन्हैयाजी वृद्ध घर, यतीम घर, आयुर्वेदिक दवाघर, कल्याण समिति (लागत 1.55 करोड़ रुपये)	वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 हेतु 1.55 करोड़ रुपये
26.	काथोबादेव शिक्षण प्रसारक मंडल, अकराले, अकराले डाकखाना रानले,	स्कूल/छात्रावास भवन का निर्माण/विस्तार	वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से दो

	जिला नंदुरबार - 425 412, महाराष्ट्र	(लागत 757.50 लाख रुपये)	वित्तीय वर्षों अर्थात् 2010-2011 एवं 2011-2012 हेतु 757.50 लाख रुपये
27.	इंडियन सेन्टर फॉर एडवासमेंट ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, गांव बांबिशनुपुर डाकखाना बेलगुहटा हल्दिया, जिला पूर्बा, मिदनापुर पश्चिमी बंगाल 721645	विद्यमान डा0 बिधन चंद्र राय अस्पताल का विस्तार (10 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित लागत 38.30 करोड़ रुपये)	वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 हेतु 10 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 38.30 करोड़ रुपये
28.	श्री दत्ता सेवा मंडल, ए टी एवं डाकखाना रुईभर, तालुका एवं जिला ओस्मानाबाद, महाराष्ट्र	संसाधन प्रबंधन प्रशिक्षण और कृषि प्रोत्साहन, जैविक कृषि, जनजातीय किसानों के लिए औषधीय और चारे वाले पौधों का विकास, पेय जल का प्रावधान और 50 लाख रुपये के कार्पस हेतु (50 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित लागत 5.03 करोड़ रुपये)	वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 हेतु 50 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 5.03 करोड़ रुपये
29.	प्राज्ञ चैतन्य फाउंडेशन ट्रस्ट, डी-847, 48/11, श्री फाल अपार्टमेंट, शहीद अमित भारद्वाज मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर-302 017.	ग्रामीण युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम (लागत 5.89 करोड़ रुपये)	वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 हेतु 5.89 करोड़ रुपये
30.	वीरयतन, ए टी एवं डाकखाना वीरयतन, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार 803 116.	विशेष रूप से 12 साल तक के बच्चों और महिलाओं के लिए एक स्वास्थ्य केन्द्र नामतः "वीरयतन हेल्थ सेंटर" का निर्माण और रखरखाव (लागत 404.81 लाख रुपये)	वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 हेतु 404.81 लाख रुपये
31.	हिन्दू मिशन हास्पिटल, 103, जी एसटी, तामबरम प0, चेन्नई 45.	हृदय, नेत्र एवं अंग अशक्तता परियोजना (लागत 5.16 करोड़ रुपये)	वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 हेतु 5.16 करोड़ रुपये

32.	बेन्नारी रूरल फाउंडेशन, बेन्नारी अम्मन सुगर काम्पलेक्स, अल्थुकोम्बई, सत्यमंगलम इरोड 638 401, तमिलनाडु	स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा के अंतर्गत विकास (लागत 609.54 लाख रुपये)	वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012- 2013 हेतु 609.54 लाख रुपये
33.	रामकृष्ण मिशन, डाकखाना बेलूर मठ जिला हावड़ा, प0 बंगाल - 711202	पूरे भारतवर्ष में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बच्चों, महिलाओं और किशोरों के लिए अनवरत विशेष सेवा कार्यक्रम के द्वारा स्वामी विवेकानंद का 150 वां जन्मोत्सव मनाने हेतु (20 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित लागत 26 करोड़ रुपये)	वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012- 2013 हेतु 20 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 26 करोड़ रुपये

II. यह अधिसूचना क्रम सं0 26 पर उल्लिखित परियोजना या स्कीम की बाबत वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के संबंध में दो वर्ष की अवधि के लिए और उक्त सारणी की क्रम सं0 सं01,2, 3,4,5,6, 7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30, 31,32, 33 एवं 34 पर उल्लिखित परियोजना या स्कीम की बाबत वित्तीय वर्ष 2010-2011, 2011-12 एवं 2012-13 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी।

[सं. 71/2010/फा. सं. बी. 27015/4/2010-एस ओ (नेट. कॉम)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd December, 2010

S.O. 3021(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, on the recommendations of the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, hereby notifies the institutions approved by the said National Committee, mentioned in column (2) of the Table below, and approves the eligible projects or schemes specified to be carried on by the said institutions and the estimated cost thereof as mentioned in column (3) of the said Table, and also specifies in the column (4) of the Table the maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under the said section 35AC for the period of approval, namely:-

TABLE

Serial Number	Name of the Institution	Project or scheme and estimated cost thereof	Maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35AC
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rajmata Singrauli Lata Chun Kumari Seva Sansthan, Singrauli Kothi, Post Waidhan, District Singrauli, Rewa, Division, Madhya Pradesh.	Prevention and eradication of Malaria general health providing to the rural population. (Cost Rs. 4.18 crore including corpus fund of Rs.2 crore).	Rs. 4.18 crore including corpus fund of Rs. 2 crore for three financial years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-2013.
2.	Lepra Society, Plot No.17, Post Box No.1518, Krishnapuri Colony, West Marredpally, Secunderabad, Andhra Pradesh.	i) Bolangir Leprosy Eradication Project. ii) Junagarh Leprosy Eradication Project iii) Koralep Project: strengthening referral system for secondary care of persons affected by leprosy. iv) Lymphatic filariasis project. v) LEPRO Mahanadi eye hospital. vi) Technical resource unit	Rs.15.41 crore for three financial years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-2013.

		<p>and strengthening referral system project.</p> <p>vii) Adilabad rural and tribal health project</p> <p>viii) Cheyutha project.</p> <p>ix) Mens intervention project</p> <p>x) Mobile voluntary counseling and testing centre project</p> <p>xi) Umeed project</p> <p>xii) Workplace intervention project.</p> <p>xiii) Krishna community health intervention project</p> <p>xiv) Sreyassu project</p> <p>xv) Technical resources unit-MP.</p> <p>(Cost Rs.15.41 crore).</p>	
3.	<p>Abhaya Ashraya, PO ASsaigoli 574199, Konaje Village, Mangalore Taluka, D.K. District, Karnataka.</p>	<p>Recurring cost of old age home, home for physically and mentally challenged older persons, recurring expenses of home for destitute children and for a corpus fund of Rs.50 lac.</p> <p>(Cost Rs. 3.40 crore including corpus fund of Rs.50 lacs).</p>	<p>Rs. 3.40 crore including corpus fund of Rs.50 lacs for three financial years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-2013.</p>
4.	<p>Legal Awareness and Welfare Society, D.No.26-32-4, Suresh Bhavan, 6th Line, A.T Agraharam, Guntur 522 001. Andhra Pradesh.</p>	<p>Caring the Child and Feeding the poor old.</p> <p>(Cost Rs.2.11 crore).</p>	<p>Rs.2.11 crore for three financial years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-13.</p>
5.	<p>Netra Chikitsa Trust, Radhika General Hospital Chital road, Amreli, Gujarat.</p>	<p>Recurring expenses for trust hospital, for setting up a training centre for nursing course, for conducting medical camps and for a corpus fund of Rs. one crore.</p> <p>(Cost Rs.9.02 crore including corpus fund of Rs.1 crore).</p>	<p>Rs.9.02 crore including corpus fund of Rs.1 crore for three financial years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-2013.</p>

6.	Sewa Sadan Eye Hospital Trust, Behind Civil Hospital, Sant Hirdaram Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh 462030.	Free eye camps and Urology camps. (Cost Rs.5.69 crore).	Rs.5.69 crore for three financial years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-2013.
7.	Solapur Zilla Magas Samaj SevaVa Sanshodhan Sanstha,15-A, Jawahar Housing Society,Civil Lines, Solapur 413 003.	Uplift Downtroddents" provding health, food & Education to Nomadic Tribal. (Cost Rs.583.63 lakh).	Rs.583.63 lakh including corpus fund of Rs.1 crore for three financial years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-2013.
8.	Kottappuram Integrated Development Society, Kottappuram P.O Kodungallur, Thrissur District, Kerala 680 667.	Natural Fibre Craft Project for Sustainable Livelihood in Rural Coastal Kerala. (Cost Rs.9.48 crore).	Rs. 9.48 crore for three financial years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-2013.
9.	Markazu Ssaquafathi Ssunniyya, Kunnamangalam Panchayat, door No. K. P.6/561, Kozhikode District, Kerala-673571.	Care of orphans & Health Schemes for rural poor. (Cost Rs. 44.05 crore).	Rs. 44.05 crore for three financial years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-2013.
10.	Budha Viklang Vikas Sansthan, Bhalua Road Domuhan,Bodh Gaya, District Gaya Bihar 824 231.	Recurring cost of school for child labors, vocational training for handicapped students, community based rehabilitation for disabled persons and for a corpus fund. (Cost Rs. 4.66 crore including corpus fund of Rs. 50.00 lacs).	Rs. 4.66 crore including corpus fund of Rs. 50.00 lacs for three financial years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-2013.
11.	Shri Balaji Shikshan Prasarak Mandal,Guruwar Peth,Ambajogai, District Beet,Maharashtra 431517.	Rehabilitation Centre for Physically and mentally challenged children. (Cost Rs. 288.30 lacs including corpus fund of Rs.153.84 lacs).	Rs. 288.30 lacs including corpus fund of Rs.153.84 lac for three financial years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-2013.
12.	Helen Keller Institute for Deaf & Deafblind, Municipal Secondary School, Ground Floor,	Educational & rehabilitation of deaf, deafblind & blind multiply handicapped - speech	Rs. 5.74 crore for three financial years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-2013.

	Near "S" Bridge, N.M Joshi Marg, Byculla (West), Mumbai - 400 011.	impaired. (Cost Rs. 5.74 crore).	
13.	Life Academy of Vocational Studies, 119, Cooperative Housing Complex, PO KIIT, Bhubaneswar 751024, Orissa.	Comprehensive development to facilitate educational, farm based livelihoods and health well being. (Cost Rs. 3.72 crore).	Rs. 3.72 crore for three financial years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-2013.
14.	Vishwa Pratishthan, Ghar No.735/23, Dindayal Nagar, Kurduwadi road, Barshi, Tal Barshi, District Solapur, Maharashtra.	"Second Inning Home" old age home for senior citizens in rural areas. (Cost of Rs.180.33 lakh with corpus fund of Rs.52.87 lakh).	Rs.180.33 lakh with corpus fund of Rs.52.87 lakh for three financial years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-2013.
15.	Nari Jagran Kendra, At Kushmi, Ward No.9, PO Chandhaddih, District Banka 813 109, Bihar.	Vocational training program for women, low cost sanitation projects for rural villages, awareness programmes on environmental hygiene, for office administration and for a corpus fund. (Cost Rs. 2.65 crore including corpus fund of Rs. 25 lacs).	Rs. 2.65 crore including corpus fund of Rs. 25 lacs for three financial years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-2013.
16.	Janahitha, Anantha Krupa, No.8-11-336, Neelaknatheshwara Nagara, NGO Colony Raichur	Micro-finance programme for Anganwadi workers, community empowerment project, shelter home for rescued children and for a corpus fund of 50 lakh. (Cost Rs. 5.03 crore	Rs. 5.03 crore for three financial years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-2013.
17.	Rajah charitable Medical Trust, P.B. No.34, Muthuvattoor, Chavakkad -680506, Trichur district, Kerala	Outreach Caring Hands. Cost of Rs. 4.06 crore).	Rs. 4.06 crore for three financial years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-2013..
18.	Kahija Kasturben	Street children project,	Rs. 2.95 crore for three financial

	Himmatlal Jani Charitable Trust, 8 Ground Floor, Vrajbhoomi Apartments, Opposite CN HIG School, Polytechnic Road, Ambawadi, Ahmedabad 380006.	AIDS project, vocational training, Health, women, children project. (Cost Rs. 2.95 crore).	years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-2013.
19.	Labour Welfare Trust, 9, Textile Labour Association, Bhadra, Ahmedabad 380001.	J.B kanyagrah. (Cost Rs. 20,25,000)	Rs. 20,25,000/- for three financial years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-2013.
20.	Faith Ministry Society, Nagagaon Colony, Dimapur, Nagaland-797112.	Establishment of Rehabilitation centre (at rented building) for drug addicts & alcoholics. (Cost Rs. 5 crore).	Rs. 5 crore for three financial years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-2013.
21.	All India children Care & Educational Development Society, Near Railway Station, Azamgarh 276011, Uttar Pradesh.	Integrated community health programmes, recurring cost of terminal for cancer, HIV/AIDS and TV patients, for adopting destitute elderly people, expansion of ambulance services, scholarship for economically poor students and for a corpus of 5 crores. (Cost Rs. 25.29 crore including corpus fund of Rs. 5 crore).	Rs. 25.29 crore including corpus fund of Rs. 5 crore for three financial years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-2013.
22.	Shri Balaji Social Welfare & Charitable Society for Education, Research & Training, Flat No. 1065, Sector B, Vasant Kunj, New Delh.	Women in Development (Cost Rs. 4.18 crore).	Rs. 4.18 crore for three financial years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-2013.
23.	Chington Development society, Phaibung Khullen, P.O. Senapati, Senapati District, Manipur 795106	Economic Empowerment of Tribal poor through Income Generation Programme. (Cost Rs. 484.50 lakh).	Rs. 484.50 lakh for three financial years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-2013.
24.	Sweekaar,	Extension of Rehabilitation	Rs 3.80 crore for three financial

	Rehabilitation Institute for Handicapped, Upkaar complex, Upkaar Junction, Picket, Secunderabad -3, Andhra Pradesh.	services to Tandur in Andhra Pradesh. (Cost Rs 3.80 crore).	years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-2013.
25.	Bhai Kahnaiyaji Birdh Ghar, Yatimghar, Ayurvedic Dawa Khana, Bhai Majh Sahib Road, Sultanwind, district Amritsar, Punjab-143001.	Bhai Kahnaiyaji Birdh Ghar Yatim Ghar Ayurvedic Dawaghar Welfare Society. (Cost Rs 1.55 crore).	Rs 1.55 crore for three financial years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-2013.
26.	Kathobadeo Shikshan Prasark Mandal Akrale, Akrale, PO Ranale, District Nandurbar -425 412, Maharashtra.	Construction/Expansion of school/hostel building. (Cost Rs. 757.50 lacs).	Rs. 757.50 lacs for two financial years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011 and 2011-12 .
27.	Indian Centre for Advancement of Research and Education, Village Banbishnupur, P.O Balguhatta, Haldia, district Purba, Medinipur West Bengal 721645.	Expansion of the existing Dr. Bidhan Chandra Roy Hospital. (Cost Rs. 38.30 crore including corpus fund of Rs. 10 crore)	Rs. 38.30 crore including corpus fund of Rs. 10 crore for three financial years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-2013.
28.	Shri Datta Seva Mandal, AT and Post Ruibhar, Tal & District Osmanabad, Maharashtra.	Resource Management Training and Agricultural support, organic farming, development of medicinal and fodder plants for tribal farmers, provision for drinking water and for a corpus of 50 lacs. (Cost Rs. 5.03 crore including corpus fund of Rs. 50 lacs).	Rs. 5.03 crore including corpus fund of Rs. 50 lacs for three financial years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-2013.
29.	Pragya Chaitanya Foundation Trust, D-847, 48/11, Shri Phal Apartments, Shaeed Amit Bharadwaj Marg, Malviya Nagar, Jaipur 302017.	Rural Youth Empowerment Program. (Cost Rs. 5.89 crore).	Rs. 5.89 crore for three financial years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-2013.

30.	Veerayatan, At & Post Veerayatan, Rajgir, District Nalanda, Bihar 803 116.	Construction and maintenance of a Health Centre specially for women and children below 12 years of age named "Veerayatan Health Centre." (Cost Rs. 404.81 lakh).	Rs. 404.81 lakh for three financial years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-2013.
31.	Hindu Mission Hospital, 103, GST Road, Tambaram West, Chennai 45.	Heart, Eye & Limb disability project. (Cost Rs. 5.16 crore).	Rs. 5.16 crore for three financial years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-2013.
32.	Bannari Rural Foundation, Bannari Amman Sugars Complex, Alathukombai, Sathyamangalam, Erode 638 401, Tamilnadu.	Development under health, sanitation and education. (Cost Rs. 609.54 lakh).	Rs. 609.54 lakh for three financial years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-2013.
33.	Ramakrishna Mission, P.O Belur Math District Howrah, West Bengal - 711202.	Commemoration of Swami Vivekananda's 150 th Birth Anniversary through sustained special service programmes for children women and youth in rural and urban area all over India. (Cost Rs. 26 crore including corpus fund of Rs. 20 crore).	Rs. 26 crore including corpus fund of Rs. 20 crore for three financial years commencing with 2010-11 i.e. 2010-2011, 2011-12 and 2012-2013.

II. This notification shall remain in force for a period of two years in relation to financial years 2010-11 and 2011-12 in respect of project or scheme mentioned at serial No. 26 and for a period of three years in relation to financial years 2010-11, 2011-12 & 2012-13 in respect of projects or schemes mentioned at serial numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 & 34 of the said table.

[No. 71/2010/F. No. V. 27015/4/2010-SO (NAT.COM)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)